

[10]

[1]

ROLL NO.....

**BC1GI01/22**

**ANNUAL EXAMINATION, 2022**

**B.COM.-I**

**GROUP-I**

**PAPER-I**

**FINANCIAL ACCOUNTING**

**TIME: 3 HOURS**

**M.M. 75**

**MINI.M.25**

नोट:- सभी पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।  
**Note: Attempt all the five questions. All questions carry equal marks.**

**इकाई-1/Unit-1**

**प्र.1.** लेखांकन को परिभाषित कीजिए। लेखांकन सूचनाओं में हित रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों का वर्णन कीजिये।

Define Accounting. State the various persons interested in accounting information.

**अथवा/OR**

निम्नलिखित व्यवहारों से रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए-

- राम ने 20,000 की नकद राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया।
- नकद माल बेचा - 10,000
- मुफ्त नमूने के रूप में माल वितरित किया - 2000
- कमीशन प्राप्त किया - 900
- मजदूरी दी - 400
- गीता को उधार माल बेचा - 5000
- गीता से पूर्ण भुगतान में प्राप्त किया - 4800
- माल दान में दिया - 200
- बैंक में जमा किया - 2000
- जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया - 1000

Mr. Bath and Mr. Well carry on separate business of a similar nature. They agreed for amalgamation. The following is a statement of their respective position.

Liabilities	Amount		Assets	Amount	
	Bath	Well		Bath	Well
			Stock	4200	1800
Creditors	1180	800	Debtors	8050	6400
Bath's loan at 4%	2000	-	Furniture	150	200
Union Bank	-	1500	Bank	580	-
Mortgage on Leasehold	-	1000	Cash	20	-
Capital	9820	7280	LIC	-	180
			Building	-	2000
	<b>13000</b>	<b>10580</b>		<b>13000</b>	<b>10580</b>

It is agreed that each partner shall bring into the partnership Rs. 10,000 in cash as its equivalent business being carried on in Well's premises of which it is agreed that the lease shall be treated in amount as worth Rs. 3500. The furniture of Bath are sold out and produce Rs. 70 the loss being borne by the partnership and it is agreed that all private liabilities and assets are to disappear from the partnership books. After necessary adjustment. Prepare partnership Balance Sheet.

-----XXXX-----

[2]

Journalise the following transactions –

- (i) Ram commenced business with Rs. 20,000 Cash.
- (ii) Sold goods for cash – 10,000
- (iii) Goods distributed by way of free samples – 2000
- (iv) Received commission – 900
- (v) Paid wages – 400
- (vi) Sold goods to Geeta on credit – 5000
- (vii) Received Geeta in full settlement of his account – 4800
- (viii) Goods given as charity – 200
- (ix) Deposited into Bank – 2000
- (x) Paid LIC premium - 1000

ईकाई-2/Unit-2

प्र.2. त्रुटियों के संशोधन का क्या आशय है? इसके लाभ बताइये।

What is the meaning of rectification of errors? Give their advantages.

[9]

अथवा/OR

मि. बाथ और मि. वेल एक ही प्रकार का अलग-अलग व्यापार करते हैं, उनमें दोनों व्यापारों के एकीकरण का समझौता हुआ। उनकी स्थिति का निम्नांकित विवरण है –

दायित्व	राशि		सम्पत्तियाँ	राशि	
	बाथ	वेल		बाथ	वेल
लेनदार	1180	800	स्कंध	4200	1800
बाथ का ऋण 4%	2000	-	देनदार	8050	6400
यूनियन बैंक	-	1500	फर्नीचर	150	200
लीजहोल्ड पर रहन	-	1000	बैंक	580	-
पूंजी	9820	7280	रोकड़	20	-
			LIC	-	180
			भवन	-	2000
	<b>13000</b>	<b>10580</b>		<b>13000</b>	<b>10580</b>

प्रत्येक साझेदार रु. 10,000 नकद या इसके समकक्ष रूप में लाने को सहमत हुआ। व्यवसाय वेल के भवन में चलाया जायेगा जिसके बारे में यह तय हुआ कि लीज रु. 3500 के मूल्य की मानी जायेगी। बाथ के फर्नीचर्स रु. 70 में बिके इस हानि की साझेदारी फर्म ने सहन किया और यह तय किया कि निजी सम्पत्तियाँ और निजी दायित्व साझेदारी की पुस्तकों से समाप्त कर दिये जायेंगे।  
उचित समायोजनओं के बाद साझेदारी का चिट्ठा बनाइये।

[8]

4 माह के अंत में	— रु. 1,00,000
6 माह के अंत में	— रु. 1,50,000
9 माह के अंत में	— रु. 3,00,000
12 माह के अंत में	— रु. 3,50,000

सामयिक ब्याज तथा नकद मूल्य किस्त की गणना कीजिये।

Ms Rathi & Sons purchased a machine from Harsha Ltd. on 1<sup>st</sup> April, 2020, Particulars of which are as follows –

- (i) Cash price of machinery Rs. 8,18,000
- (ii) Hire purchase prices Rs. 9,00,000
- (iii) This hire purchase price is paid in the following manner :
 

At the end of 4 <sup>th</sup> months	Rs. 1,00,000
At the end of 6 <sup>th</sup> months	Rs. 1,50,000
At the end of 9 <sup>th</sup> months	Rs. 3,00,000
At the end of 12 <sup>th</sup> months	Rs. 3,50,000

Calculate periodic interest and cash price installments.

### ईकाई—5/Unit-5

प्र.5. साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है तथा विघटन पर की जाने वाली आवश्यक पंजी (जर्नल) प्रविष्टियाँ कीजिए।

What is meant by dissolution of partnership firm and give necessary journal entries on dissolution.

[3]

अथवा/OR

श्याम की पुस्तकों में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नांकित शेष निकाले गये –

खातों के नाम	विकलन शेष	समाकलन शेष
पूंजी		1,00,000
हस्तस्थ रोकड़	16,800	
बैंक अधिविकर्ष		20,000
क्रय एवं विक्रय	1,20,000	1,50,000
वापसी	10,000	20,000
स्थापना व्यय	25,000	
कर एवं बीमा	5,000	
डूबत ऋण एवं आयोजन	5,000	10,000
देनदार एवं लेनदार	5,000	20,000
कमीशन		5,000
विनियोग	40,000	
स्कंध, 1 अप्रैल, 2021	30,000	
आहरण	14,000	
फर्नीचर	6000	
प्राप्त एवं देय विपत्र	30,000	25,000
आगत सीजीएसटी	3600	
आगत एसजीएसटी	3600	
निर्गत सीजीएसटी		4500
निर्गत एसजीएसटी		4500
<b>योग</b>	<b>3,59,000</b>	<b>3,59,000</b>

[4]

The following balances are extracted for the year ending 31<sup>st</sup> March, 2022 from the books of Shyam.

Name of Accounts	Debit Balance	Credit Balance
Capital		1,00,000
Cash in Hand	16,800	
Bank Overdraft		20,000
Purchases and Sales	1,20,000	1,50,000
Returns	10,000	20,000
Establishment charges	25,000	
Taxes & Insurance	5,000	
Bad Debts & Provision	5,000	10,000
Creditors and Debtors	50,000	20,000
Commission		5,000
Investment	40,000	
Stock, 1 April, 2021	30,000	
Drawings	14,000	
Furniture	6000	
Bills Receivable & Payable	30,000	25,000
Input CGST	3600	
Input SGST	3600	
Output CGST		4500
Output SGST		4500
<b>Total</b>	<b>3,59,000</b>	<b>3,59,000</b>

[7]

You are required to write up the 'Motor Vehicles Account' for the year from 2017-18 to 2020-21.

Depreciation is written off @20% per annum on the 'Straight Line Method', Accounts of company are closed on 31<sup>st</sup> March every year.

**ईकाई—4/Unit-4**

**प्र.4.** किराया क्रय पद्धति ओर किस्त भुगतान पद्धति से क्या आशय है? किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में क्या अंतर है? किस्त क्रय पद्धति में क्रेता की पुस्तकों में की जाने वाली आवश्यक प्रविष्टियों का वर्णन कीजिये।

What is meant by the hire purchase system and Installment payment system? State the difference between Hire purchase system and installment payment system. Mention the necessary entries in the books of buyer when goods are sold on installment purchase system.

**अथवा/OR**

1 अप्रैल 2020 को मैसर्स राठी एंड संस ने हर्षा लिमिटेड से किराया क्रय पद्धति पर एक मशीन क्रय की जिसका विवरण इस प्रकार है –

- (i) मशीन का रोकड़ मूल्य – रु. 8,18,000
- (ii) किराया क्रय मूल्य – रु. 9,00,000
- (iii) इस किराया क्रय मूल्य का भुगतान इस प्रकार किया जाना है—

[6]

**इकाई-3/Unit-3**

**प्र.3.** गैर व्यापारिक संस्था से आप क्या समझते हैं? गैर व्यापारिक संस्था कितने प्रकार की होती है? इनके लेखांकन के उद्देश्य बताइये।

What do you understand by non-trading institutions. How many types of non-trading institutions are there? Describe its objectives of accounting.

**अथवा/OR**

श्याम गैरेज की पुस्तकों से निम्नलिखित सूचनाएँ ट्रकों के बारे में मिली है जो इसके व्यवसाय में प्रयोग किये गये हैं –

1 जनवरी 2018 को ट्रक नं. 1 खरीदा रु. 2,00,000

1 जुलाई 2018 को ट्रक नं. 2 खरीदा रु. 1,80,000

1 जनवरी 2020 को ट्रक नं. 3 खरीदा रु. 1,20,000

1 जुलाई 2020 को ट्रक नं. 4 खरीदा रु. 1,05,000

आप मोटर गाड़ी खाता वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि का बनाइए।

ह्रास 20% वार्षिक की दर से 'स्थायी प्रभाव पद्धति' के अनुसार लगाया गया है, कम्पनी के खाते प्रति वर्ष 31 मार्च को बंद होते हैं।

Following informations are available from the records of Shyam Garage in respect of the trucks used by it for its business.

Truck No. 1 was purchased on 1<sup>st</sup> January, 2018 for Rs. 2,00,000

Truck No. 2 was purchased on 1<sup>st</sup> July, 2018 for Rs. 1,80,000.

Truck No. 3 was purchased on 1<sup>st</sup> January, 2020 for Rs. 1,20,000

Truck No. 4 was purchases on 1<sup>st</sup> July, 2020 for Rs. 1,05,000

[5]

31 मार्च, 2022 को व्यापार एवं लाभहानि खाता तथा चिट्ठा बनाइए।  
निम्नलिखित सूचनाओं का भी समावेश कीजिए –

- (i) वेतन रु. 1,000 कर रु. 2,000 अदत्त है लेकिन बीमा रु. 500 पूर्वदत्त है।
- (ii) कमीशन के रु. 1,000 अग्रिम प्राप्त है जोकि अगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्य से संबंधित है।
- (iii) विनियोग पर अर्जित ब्याज रु. 2,100 अधिविकर्ष पर देय ब्याज रु. 3,000 है।
- (iv) डूबत ऋण आयोजन रु. 10,000 पर बनाए रखना है।
- (v) फर्नीचर पर 10% मूल्य ह्रास लगाइए।
- (vi) 31 मार्च, 2022 को स्कंध का मूल्यांकन रु. 45,000 पर किया गया।

You are required to prepare Trading & Profit & Loss Account and Balance Sheet on 31<sup>st</sup> March, 2022; taking into account the following informations-

- (i) Salaries Rs. 1,000 taxes Rs. 2,000 are outstanding but Rs. 500 for insurance is prepaid.
- (ii) Commission Rs. 1,000 has been received in advance for work to be done next year.
- (iii) Interest accrued on investments Rs. 2100, Interest to be paid on overdraft Rs. 3,000.
- (iv) Bad debts provision is to be maintained Rs. 10,000
- (v) Depreciation on furniture at 10%
- (vi) Stock on 31<sup>st</sup> March, 2022 is valued at Rs. 45,000.